

अध्याय-10

हाइड्रोकार्बन (संतृप्त एवं असंतृप्त)

HYDROCARBON (SATURATED AND UNSATURATED)

कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पेट्रोल, डीजल, संघनित प्राकृतिक गैस, घरेलू गैस (खाना बनाने की गैस), गौबर गैस आदि सभी हाइड्रोकार्बन अथवा उनके मिश्रण होते हैं। संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन को दो मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है :—


10.1 विवृत शृंखला हाइड्रोकार्बन (Open Chain Hydrocarbon) —

इन हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणुओं की शृंखला खुली होती है। इस शृंखला में सिरे के कार्बन एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं इसलिए इन्हें अचक्रीय यौगिक भी कहते हैं। विवृत शृंखला के यौगिक सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किये गये थे। अतः इन्हें ऐलिफेटिक यौगिक (ऐलिफैटोस का अर्थ वसा होता है) भी कहते हैं।

इन हाइड्रोकार्बन को पुनः दो वर्गों में विभाजित किया जाता है—

10.1.1 संतृप्त हाइड्रोकार्बन (Saturated Hydrocarbon) — ये हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन परमाणुओं की चारों संघोकताएं एकल बंध से ही बंधित होती है अर्थात् इनमें कार्बन और कार्बन—हाइड्रोजन एकल बंध पाये जाते हैं। इनको ऐल्केन (Alkane) या पैराफिन भी कहते हैं। पैराफिन का अर्थ है कम क्रियाशीलता अर्थात् ये यौगिक कम क्रियाशील होते हैं (परम—बहुत कम, एफिनिस—क्रियाशीलता)। इन पर त्रिव्र अम्ल और क्षारक का कोई प्रभाव नहीं होता है क्योंकि ये संतृप्त होते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र C_nH_{2n+2} होता है।


जहाँ पर n अणु में उपस्थित कार्बन परमाणुओं की संख्या है ($n = 1, 2, 3, \dots$) इस वर्ग के प्रथम तीन सदस्य क्रमशः मेथेन (CH_4), एथेन (C_2H_6) एवं प्रोपेन (C_3H_8) हैं। ऐल्केन के सभी कार्बन परमाणुओं की संकरण अवरथा sp^3 होती है। इसमें $C - C$ के मध्य एक ठंडे बंध होता है।




10.1.2 असंतृप्त हाइड्रोजन (Unsaturated Hydrocarbon)

— कार्बन एवं हाइड्रोजन परमाणु से बने ऐसे यौगिक जिनमें द्विबन्ध या त्रिबन्ध पाये जाते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं—

(अ) **ऐल्कीन (Alkene)** — ऐसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक कार्बन—कार्बन द्विबन्ध ($C=C$) पाया जाता है, ऐल्कीन कहलाते हैं। इन्हें ऑलिफिन भी कहते हैं क्योंकि ये हैलोजन से क्रिया करके तैलीय पदार्थ बनाते हैं। इस वर्ग का सामान्य सूत्र C_nH_{2n} होता है, जहाँ $n = 2, 3, 4, \dots$ है। इस वर्ग के प्रथम दो सदस्य एथीन (C_2H_4) एवं प्रोपीन (C_3H_6) हैं। द्विबन्ध वाले कार्बन परमाणुओं की संकरण अवरथा sp^2 तथा शेष सभी कार्बन परमाणुओं की sp^3 संकरण अवरथा होती है। कार्बन द्विबन्ध में एक σ एवं एक π बन्ध होता है।



(ब) ऐल्काइन (Alkyne) – इन असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की संरचना में एक कार्बन कार्बन त्रिबन्ध (HC ≡ CH) पाया जाता है। इनका सामान्य सूत्र C_nH_{2n-2} होता है ($n = 2, 3, 4, \dots$)। इन यौगिकों में त्रिबन्ध वाले दोनों कार्बन परमाणुओं की संकरण अवश्या sp होती है। अन्य कार्बन की संकरण अवश्या sp^3 होती है। इस वर्ग का प्रथम सदस्य एथाइन या ऐसीटिलीन है। इस कारण ऐल्काइन सजातीय वर्ग को ऐसीटिलीन्स भी कहते हैं। इस वर्ग के कुछ निम्नलिखित उदाहरण हैं –




10.2 संवृत शृंखला हाइड्रोकार्बन (Close Chain Hydrocarbon) –

इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में कार्बन परमाणु परस्पर एक बंद शृंखला के रूप में रहते हैं अर्थात् एक चक्रीय संरचना का निर्माण करते हैं। इसलिए इन्हें चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। ऐसे चक्रीय कार्बनिक यौगिक जिनमें चक्र के बहल कार्बन परमाणु से बनता है तो उन्हें समचक्रीय या कार्बलीय यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं : –


10.2.1 ऐलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन (Alicyclic Hydrocarbon) – ऐसे समचक्रीय यौगिक जिनके गुणधर्म विषुत शृंखला यौगिकों में समान होते हैं। ऐलिसाइक्लिक यौगिक, कहलाते हैं। ऐसे यौगिक भी संतृप्त एवं असंतृप्त होते हैं।

संतृप्त ऐलिसाइक्लिक यौगिक :




संतृप्त ऐलिसाइक्लिक यौगिकों में तीन या अधिक मेथिलीन समूह आपस में एक चक्र के रूप में जुड़े रहते हैं। इस कारण इन्हें ट्राइमेथिलीन, ट्रिट्रामेथिलीन, पेन्टामेथिलीन भी कहते हैं।

असंतृप्त ऐलिसाइक्लिक यौगिक :



उपरोक्त यौगिकों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबन्ध पाया जाता है जो एक चक्र में एक से अधिक भी हो सकते हैं।

10.2.2 ऐरोमेटिक हाइड्रोकार्बन (Aromatic Hydrocarbon) – बेन्जीन या उसके व्युत्पन्न तथा अनेक बहुचक्रीय यौगिक ऐरोमेटिक हैं। इन यौगिकों में सुगन्ध आती है। बेन्जीन 6 कार्बन परमाणुओं से बनी वलयाकार संरचना है जिसमें बंद शृंखला में एकल एवं द्विबन्ध एकान्तर स्थिति में होते हैं। ऐसे यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक बेन्जीन वलय पाई जाती है उन्हें बेन्जीनॉइड ऐरोमेटिक यौगिक कहते हैं।



10.3 मेथेन Methane (CH_4)


मेथेन गैस का निर्माण दलदल में कार्बनिक पदार्थों के क्षय होने से होता है। इसलिए इसे मार्श गैस भी कहते हैं। कोयले की खदानों में मेथेन अधिक मात्रा में पाई जाती है। पेट्रोलियम से प्राप्त प्राकृतिक गैस में 90 प्रतिशत तक मेथेन होती है। शुष्क सोडियम ऐसीटेट और सोडालाइम के मिश्रण को गर्म करके मेथेन गैस बनाई जा सकती है।



10.3.1 भौतिक गुण – यह एक रंगहीन एवं गन्धहीन गैस है। यह जल में अविलेय जबकि ऐल्कोहॉल एवं ईथर में विलेय है। इसका क्वथनांक $164^\circ C$ है।

10.3.2 रासायनिक गुणधर्म –



- मेथेन का $1000^\circ C$ ताप पर अपघटन होकर कार्बन और हाइड्रोजन प्राप्त होते हैं।




- मेथेन, ओजोन से ॲक्सीकृत होकर फॉर्मेलिडहाइड बनाती है।




3. मेथेन पर नाइट्रोजन अथवा अमोनिया की क्रिया से हाइड्रोजन सायनाइड बनता है।




4. मेथेन उत्प्रेरक निकैल चूर्ण की उपस्थिति में 1000°C ताप पर भाप के साथ किया कर कार्बन मोनोऑक्साइड बनाती है।




5. मेथेन और ऑक्सीजन के (9 : 1) मिश्रण को 200°C ताप और 100 वायुमण्डलीय दाब पर गर्म कॉपर नलिका में से प्रवाहित करने पर मेथिल ऐल्कोहॉल वाष्प प्राप्त होती है।






6. मेथेन वायु में ज्योतिहीन ज्वाला से जलकर CO_2 तथा जल बनता है।




7. मेथेन क्लोरीन से मंद सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करके मेथिल क्लोराइड बनाती है।



यह अभिक्रिया आगे भी चलती रहती है तथा एक-एक करके सभी हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणुओं द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं।



मेथेन सूर्य के प्रकाश में इतनी अधिक क्रियाशील हो जाती है कि कार्बन तथा HCl तक प्राप्त हो जाते हैं।




10.3.3 उपयोग –

- प्राकृतिक गैस के रूप में ईंधन में काम आती है।
- मेथिल ऐल्कोहॉल (मेथैनॉल) एवं फार्मेलिडहाइड बनाने के काम आती है।
- मेथेन द्वारा कार्बन ब्लेक एवं छापे की रसायी बनाई जाती है।
- मेथिल क्लोराइड एवं मेथिलीन डाइ क्लोराइड बनाने के काम आती है जो प्रशीतन के काम आते हैं।
- व्यवसायिक मात्रा में हाइड्रोजन प्राप्त करने के काम आती है।

10.4 एथिलीन Ethelene (C_2H_4)


एथिलीन कोयला गैस में 4–5 प्रतिशत मात्रा में पाई जाती है। यह पेट्रोलियम क्षेत्र की प्राकृतिक गैस में पाई जाती है।




10.4.1 मौतिक गुण – यह एक रंगहीन गैस है। यह जल में प्रायः अविलेय है जबकि ऐल्कोहॉल में विलेय है। यह वायु या ऑक्सीजन के साथ दीपिंगान ज्वाला के साथ जलती है। इसका कवर्थनांक -105°C होता है।

10.4.2 रासायनिक गुण –

- वायु में यह दीपिंगान से जलकर CO_2 तथा H_2O देती है।




- उत्प्रेरकी ऑक्सीकरण : सिल्वर उत्प्रेरक की उपस्थित में यह ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एथिलीन ऑक्साइड बनाती है।




- योगात्मक अभिक्रियाएँ : एथिलीन अनेक अभिकर्मकों से क्रिया करके उनके उत्पाद बनाती है।

(i) **हैलोजन से –** क्लोरीन एवं ब्रोमीन से शीघ्रता से क्रिया द्वारा एथिलीन डाइहैलाइड बनाती है। आयोडिन से यह क्रिया धीमी होती है।




(ii) हैलोजन अम्लों से – सान्द्र हैलोजन अम्लों से क्रिया द्वारा एथिल हैलाइड बनते हैं।




अभिक्रियाशीलता का क्रम निम्नानुसार होता है –
 $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl} > \text{HF}$


(iii) हाइड्रोजन से – निकैल, पैलेडियम अथवा प्लेटिनम उत्प्रेरक की उपस्थिति में यह हाइड्रोजन से संयोग कर एथेन बनाती है। इस अभिक्रिया को उत्प्रेरकी हाइड्रोजनीकरण कहते हैं।




(iv) हाइपोक्लोरस अम्ल से – एथिलीन पर HOCl की क्रिया से एथिलीन क्लोरोहाइड्रिन बनता है।




(v) सल्फ्यूरिक अम्ल से – ठण्डे तथा 80 प्रतिशत H_2SO_4 में अवशोषित होकर यह एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बनाती है।



(vi) ओजोन से – एथिलीन निम्न ताप तथा अक्रिय माध्यम में ओजोन से क्रिया द्वारा एथिलीन ओजोनाइड बनाती है। जो जल के साथ उबालने पर फॉर्मेलिडहाइड देता है।




जल अपघटन में बना H_2O_2 सामान्यतः फॉर्मेलिडहाइड को फॉर्मिक अम्ल में ऑक्सीकृत कर देता है परन्तु यदि अभिक्रिया यशद रज (Zn) के साथ कराई जाये तो वह H_2O_2 को जल में अपचयित कर देती है।




एथीन पर ओजोन का जुड़ना ओजोनीकरण कहलाता है। जबकि दूसरी अभिक्रिया (पद) ओजोनाइड का जल अपघटन है। अतः सम्पूर्ण अभिक्रिया एथिलीन का ओजोनी अपघटन कहलाती है।

4. ऑक्सीकरण – एथिलीन अति तनु क्षारीय KMnO_4 विलयन 1% से ऑक्सीकृत होकर एथिलीन ग्लाइकॉल बनाती है। अभिक्रिया में KMnO_4 का गुलाबी विलयन रंगहीन हो जाता है। इसे बेयर परीक्षण कहते हैं। यह अभिक्रिया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के परीक्षण में काम आती है।




5. बहुलकीकरण – जब एथिलीन को उच्च दाब तथा उच्च ताप पर ऑक्सीजन की अल्प मात्रा की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बहुत सारे अणु मिलकर पॉलिएथिलीन या पॉलिथीन बनाते हैं।



10.4.3 उपयोग –

- कच्चे फलों को पकाने में।
- एथिलीन ग्लाइकॉल के निर्माण में।
- निश्चेतक के रूप में।
- मस्टर्ड गैस नामक एक विषेश युद्ध गैस के निर्माण में।



10.5 ऐसीटिलीन Acetylene (C_2H_2)

यह कोल गैस में अति अल्प मात्रा में विद्यमान रहती है। हाइड्रोकार्बन तथा ऐल्काहॉल के अपूर्ण दहन पर यह कम मात्रा में बनती है। प्रकृति में यह बहुतायत से नहीं मिलती है। ऐसीटिलीन का निर्माण कैल्सियम कार्बाइड के जल अपघटन द्वारा किया जा सकता है।



10.5.1 मौतिक गुण – यह एक रंगहीन गैस है। जिसकी गंध शुद्ध अवस्था में ईर्थर के समान होती है। फार्सीन (PH_3) की अशुद्धि होने पर इसमें लहसुन जैसी गंध आती है। यह जल में अल्प विलेय, ऐल्कोहाल में विलेय तथा ऐसीटोन में अत्यधिक विलेय है। सामान्य दाब पर इसका वर्धनांक -84°C होता है।

10.5.2 रासायनिक गुण –


- दहन** – ऐसीटिलीन तथा ऑक्सीजन का मिश्रण विशिष्ट अनुपातों में प्रवाण विस्फोट के साथ जलता है और CO_2 तथा H_2O बनते हैं। यह अत्यन्त ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है।




ऐसीटिलीन तथा ऑक्सीजन से प्राप्त ज्वाला को ऑक्सी-ऐसीटिलीन ज्वाला कहते हैं। जिसका तापमान 3500°C होता है। अतः इसे वेल्डिंग तथा इस्पात काटने के काम में लाया जाता है।

2. योगास्थक अभिक्रियाएँ — ऐसीटिलीन पर योग होने पर उसका त्रिवन्ध पहले द्विवन्ध में और फिर एकल बन्ध में परिवर्तित हो जाता है। जैसे —


(i) हाइड्रोजन से – निकैल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया द्वारा पहले एथिलीन और फिर एथेन बनती है।




(ii) हैलोजन से – ऐसीटिलीन Cl_2 एवं Br_2 के साथ अंधेरे में संयोग कर डाइ व ट्रेटा हैलाइड बनाती है। आयोडीन के साथ किया विशेष परिस्थिति में होती है और केवल डाइआयोडाइड बनाती है।



तीव्र प्रकाश में कलोरीन से क्रिया विस्फोट के साथ होती है और कार्बन एवं हाइड्रोजन क्लोराइड बनते हैं।




(iii) हैलोजन अम्लों से – ऐसीटिलीन पर HCl , HBr तथा HI के योग से पहले वाइनिल हैलाइड और उसके बाद एथिलिन हैलाइड प्राप्त होते हैं। हैलोजन अम्लों की क्रियाशीलता का क्रम $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$ है। यह प्रक्रिया मंद प्रकाश में ही होने लगती है परन्तु अधिक प्रकाश में तीव्र गति से होती है।




उपरोक्त अभिक्रिया में दूसरे पद में HBr का हाइड्रोजेन परमाणु उस कार्बन से संयुक्त होता है जिस पर हाइड्रोजेन परमाणु पहले ही अधिक होता है। इसे मार्कोनिकॉफ नियम कहते हैं।


(iv) जलयोजन – मकर्यूरिक सलफेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में तनु H_2SO_4 विलयन $80^{\circ}C$ पर ऐसीटिलीन प्रवाहित करने पर ऐसीटैल्डहाइड बनता है।




3. बहुलीकरण — जब ऐसीटिलीन को 600°C ताप पर लाल तपत लौह नलिका में से प्रवाहित किया जाता है तो इसके तीन अणु आपस में योग कर बैन्जीन का एक अणु बनाते हैं। इस क्रिया को बहुलीकरण कहते हैं।




4. ऑक्सीकरण – (i) तनु क्षारीय $KMnO_4$ द्वारा पहले न्यूलाइऑक्सेल, फिर फॉर्मिक अम्ल और अन्त में CO_2 तथा H_2O बनते हैं।




(ii) अम्लीय $K_2Cr_2O_7$ से ऑक्सीकरण पर ऐसीटिक अम्ल बनता है।




5. ओजोन क्रिया – ऐसीटिलीन ओजोन से क्रिया करके पहले ओजोनाइझ बनाती है। जिसका जल अपघटन करने पर ग्लाउडेंसेल प्राप्त होता है।




६. ऐसीटिलाइड का निर्माण - (i) सोडियम या सोडामाइड से - पहले मौनोसोडियम ऐसीटिलाइड और किर डाइसोडियम ऐसीटिलेट तय हैं।



(ii) अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट से - ऐसीटिलीन अमोनियामय सिल्वर नाइट्रेट से क्रिया कर सिल्वर ऐसीटिलाइड का श्वेत अवधेप बनाती है।




(iii) अमोनियामय क्यूप्रस वलोराइड से – यह अमोनियामय क्यूप्रस वलोराइड से किया करके क्यूप्रस ऐसीटिलाइड का लाल अवधारणा बनाती है।



10.5.3 उपयोग –

- प्रदीपन के लिए ऐसीटिलीन लैम्प के रूप में।
 - बैलिङ तथा धातुओं को काटने के लिए ऑक्सी-ऐसीटिलीन ज्वाला के रूप में।
 - कृत्रिम विधि द्वारा फलों को शीघ्र पकाने में।
 - कार्बन ब्लैंक बनाने में, जिससे रसायी बनती है।
 - संश्लेषित रबड़ तथा प्लास्टिक के निर्माण में।
 - लुइसाइट के निर्माण में, जो एक अत्यन्त विषैले पदार्थ के रूप में युद्ध में प्रयोग की जाती है।
 - वेस्ट्रान एवं वेस्ट्रोसॉल सेलुलोज ऐसीटेट के विलायक के रूप में किया जाता है।
 - वेस्ट्रोसॉल को ट्राइक्लीन के नाम से निर्जल धुलाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है।
 - इसका उपयोग वाइनिल क्लोराइड, वाइनिल ऐसीटेट, ऐसीटैल्डहाइड आदि को बनाने में किया जाता है।

महत्त्वपूर्ण बिन्दु



- कार्बन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बने यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं।
 - हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कोल तथा पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं।
 - ऐक्सेन, ऐक्सीन एवं ऐल्काइन के सामान्य सूत्र क्रमशः
 C_nH_{2n+2} , C_nH_{2n} , C_nH_{2n-2}
 - मैथेन के कलोरीनीकरण से CH_3Cl , $CHCl_3$, CCl_4 आदि उपयोगी रसायनों का निर्माण किया जाता है।
 - ऐथिलीन के ओजोनी अपघटन द्वारा फॉर्म ऐल्डहाइड का निर्माण होता है।
 - असंतृप्त हाइड्रोकार्बन परीक्षण के लिए बेयर परीक्षण ($KMnO_4$ गुलाबी विलयन का राहीन होना) का उपयोग करते हैं।
 - कृत्रिम विधि द्वारा फलों को शीघ्र पकाने के लिए ऐसीटिलीन गैस का उपयोग किया जाता है।
 - मैथेन, एथीलीन एवं ऐसीटिलीन जल में अल्प या अविलेय परन्तु एल्कोहॉल में विलेय होती है।
 - ऐसीटिलीन का उपयोग संश्लेषित रबड़ एवं प्लास्टिक बनाने में करते हैं।

अभ्यासार्थ प्रश्न

वस्तनिष्ठ प्रश्न :—

अतिलघुत्तरात्मक प्रश्न :-

11. ऐलिफैटिक यौगिक को परिभाषित करें?
 12. आइसोपैटेन एवं नियोपैटेन का संरचनात्मक सूत्र लिखिए।
 13. ऐल्कीन को ओलिफिन भी कहते हैं, कारण स्पष्ट कीजिए।
 14. ऐरोमैटिक हाइड्रोकार्बन से क्या तात्पर्य है?
 15. बेन्जीनॉइड ऐरोमैटिक यौगिक से क्या तात्पर्य है?
 16. बेयर परीक्षण से आप क्या समझते हैं?
 17. बहुनीकरण से क्या तात्पर्य है? एक उदाहरण दीजिए।
 18. मार्कोनिकॉफ नियम से क्या तात्पर्य है?

लघुत्तरात्मक प्रश्न :-

- विवृत शृंखला एवं सदृत शृंखला हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर हैं?
 - ऐलिसाइपिलिक एवं ऐरोमेटिक योगिकों में क्या अंतर हैं?
 - मेथन के उपयोग लिखिए।
 - ऐसीटिलीन से कौन-कौन से ऐसीटिलाइड का निर्माण होता है? विस्तार से समझाइए।

निबंधात्मक प्रश्न :-

- योगात्मक अभिक्रिया से क्या अभिप्राय है? ऐसीटिलीन की योगात्मक अभिक्रियाओं को विस्तार से समझाइए।
 - बहुलकीरण से क्या अभिप्राय है? कोई दो उदाहरण की रासायनिक समीकरण लिखिए तथा इनके उपयोग बताइए।
 - ऐसीटिलीन की ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाइए।
 - हाइड्रोकार्बन के विभिन्न प्रकार विस्तार पूर्वक समझाइए।

उत्तरमाला

1. (अ) 2. (अ) 3. (अ) 4. (ब) 5. (अ) 6. (ब) 7. (द)
 8. (अ) 9. (ब) 10. (स)